

## Birla Cable Limited

Regd. Office & Works:

Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa - 486 006 Madhya Pradesh, India.

Telephone: +91 07662 400580 · Fax: +91 07662 400680

E-Mail: headoffice@birlacable.com · Website: www.birlacable.com
PAN No. AABCB1380L · CIN No. L31300MP1992PLC007190

GSTIN: 23AABCB1380L1ZW

BCL/CS/2025-26/Reg-47

8 AUG 2025

BSE Ltd.
Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
P.J.Towers, Dalal Street,
Fort,
MUMBAI-400 001

The Manager,
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd,
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI-400 051

Company's Scrip Code: 500060

Company's Scrip Code: BIRLACABLE

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2025

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the Newspaper Publication for the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on 30th June, 2025 published in Newspapers viz. – Financial Express (in English) and Dainik Jagran (in Hindi) on 8th August, 2025.

The aforesaid information will also be uploaded on the Company's website at <a href="https://www.birlacable.com">https://www.birlacable.com</a>.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Birla Cable Limited O BIRLA

(Suman)

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above.

unay.









17

# **FOR DAILY BUSINESS** THE BUSINESS DAILY



#### **BIRLA CABLE LIMITED**

Registered Office: Udyog Vihar, P.O. Chorhata, Rewa – 486 006 (M.P.)
CIN: L31300MP1992PLC007190
Telephone No: 07662-400580, Fax No: 07662-400680
E-mail: headoffice@birlacable.com; Website: www.birlacable.com

# EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

|     |   |             |            |             | (7 in lakhs) |
|-----|---|-------------|------------|-------------|--------------|
| SL  |   | Q           | arter Ende | d           | Year Endec   |
| No. | Particulars   | 30.06.2025  | 31.03.2025 | 30.06.2024  | 31.03.2025   |
|     |   | (Unaudited) | (Audited)  | (Unaudited) | (Audited)    |
| 1   | Total Income from Operations  | 17643.76    | 15622.97   | 16590,77    | 66165.23     |
| 2   | Net Profit(Loss) for the period<br>(before Tax. Exceptional and/or Extraordinary Items)   | 185.92      | 205.03     | 20,84       | 668.29       |
| 3   | Net Profit(Loss) for the period before Tax<br>(after Exceptional and/or Extraordinary (tems)  | 185.92      | 205.03     | 20.84       | 668.29       |
| 4   | Net Profit/(Loss) for the period after Tax<br>(after Exceptional and/or Extraordinary Items)  | 136.21      | 148.41     | 14.40       | 489.14       |
| 5   | Total Comprehensive Income for the period<br>[Comprising Profit for the period (after tax) and Other<br>Comprehensive Income (after tax)] | 2018.28     | (1969.91)  | 1698.37     | 749.66       |
| 6   | Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- per share)   | 3000.00     | 3000.00    | 3000.00     | 3000.00      |
| 7   | Reserves (excluding Revaluation Reserve)  |             |            |             | 22324.94     |
| 8   | Basic & Diluted Earnings per share (of ₹10/- each) for the period   | 0.45        | 0.49       | 0.05        | 1.63         |

| SL  | Particulars                  | Q           | Year Ended            |             |            |  |
|-----|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|--|
| No. |                              | 30.06.2025  | 31.03.2025 30.06.2024 |             | 31.03.2025 |  |
|     |                              | (Unaudited) | (Audited)             | (Unaudited) | (Audited)  |  |
| 1   | Total Income from Operations | 17643.76    | 15622.97              | 16590.77    | 66165.23   |  |
| 2   | Profit before Tax            | 184.03      | 202.99                | 8.98        | 683.56     |  |
| 3   | Profit after Tax             | 134.49      | 145.07                | 2.54        | 503.11     |  |
| 4   | Total Comprehensive Income   | 2016.67     | (1972.71)             | 1685.90     | 762.07     |  |



for Birla Cable Limited (Harsh V. Lodha)

Chairman DIN: 00394094 New Delhi

Date: 7" August, 2025

Corp. Office:- Water Works Road h. No.: +91 522 2653602/, Fax: +91 522 26

INDIA PESTICIDES LIMITED

| Sr.<br>No | Particulars   | Quarter<br>ended<br>30.06.2025 | Quarter<br>ended<br>31.03.2025 | Quarter<br>ended<br>30.06.2024 | Year<br>ended<br>31.03.2025 |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|           |   | (Unaudited)                    | (Audited)                      | (Unaudited)                    | (Audited)                   |
| 1.        | Total Income from operations  | 275.18                         | 207.24                         | 220.36                         | 828.61                      |
| 2.        | Net Profit/ (Loss) for the period (before tax,<br>Exceptional and/or Extraordinary items)   | 47.08                          | 28.86                          | 26.66                          | 111.37                      |
| 3.        | Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after<br>Exceptional and/or Extraordinary items)  | 47.08                          | 28.86                          | 26.66                          | 111.37                      |
| 4.        | Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after<br>Exceptional and/or Extraordinary items)   | 34.91                          | 21.77                          | 19.48                          | 82.18                       |
| 5.        | Total comprehensive income for period (Comprising<br>Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other<br>Comprehensive Income (after tax) | 34,84                          | 21.60                          | 19.53                          | 82.14                       |
| 6.        | Equity Share Capital  | 11.52                          | 11.52                          | 11.52                          | 11.52                       |
| 7.        | Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year   |                                |                                |                                | 886.89                      |
| 8.        | Earning Per Share (Face Value of Rs. 1 each)<br>(Not annualised)  |                                |                                |                                |                             |
|           | 1. Basic  | 3.03                           | 1.89                           | 1.69                           | 7.14                        |
|           | 2. Diluted  | 3.03                           | 1.89                           | 1.69                           | 7.14                        |

| _         | z. Diluteu                    | 5.05  | 1.00  | 1.00  | 7,14                                     |
|-----------|-------------------------------|---|---|---|--|
|           | KEY HIGHLIGH                  | ITS OF STANDALONE FINA                        | NCIAL RESULTS                               |   | (Rs. in Crores)                          |
| Sr.<br>No | Particulars                   | Quarter<br>ended<br>30.06.2025<br>(Unaudited) | Quarter<br>ended<br>31.03.2025<br>(Audited) | Quarter<br>ended<br>30.06.2024<br>(Unaudited) | Year<br>ended<br>31.03.2025<br>(Audited) |
| 1,        | Total Revenue from Operations | 275.41  | 207.65                                      | 220.36  | 829.02                                   |
| 2.        | Profit before tax             | 47.62   | 29.35                                       | 27.41   | 113.57                                   |
| 3.        | Profit after tax              | 35.38   | 22.33                                       | 20.06   | 84.37                                    |
| 4:        | Total Comprehensive Income    | 35.36   | 22.16                                       | 20.11   | 84.33                                    |

Date: 07.08.2025 Place: Lucknow

FL

ness: The above is an extract of the Un audited financial results for the quarter ended 30th June, 2025 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of Directors at their meeting held on 07th August, 2025, and have been reviewed by Statuton Auditors and filled with the stock exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Discolaure Requirements) Regulation 2015, as amended. The full format of the aforesaid financial results is available on the website of the Company (www.indapsetiodesillimide.com), National Stock Exchange of India Limited (www.neindia.com) and SE Limited (www.indapsetiodesillimide.com), National Stock Exchange of India Limited (www.neindia.com) and SE Limited (www.indapsetiodesillimide.com).



For and on Behalf of the Board For India Pesticides Limited Sd/Dr. Kuruba Adeppa
Whole Time Director
DIN: 08987462

ongc

ओएनजीसी 🌉 ONGC

ongc

OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED

CIN: L748990L1993G0I054155

Registered Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

Website: www.ongcindia.com, email: secretariat@ongc.co.in Tel: 011-26754073/ 4085

#### PUBLIC NOTICE

32" ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND RECORD DATE

Notice is hereby given that 32" Annual General Meeting (AGM) of the Members of OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED will be held on Friday, 29" August, 2025 at 11:00 am (IST) through Video Conferencing ("CVO") Other Audio Visual Means ("OAWM") to transact the business as set forth in the Notice of AGM, in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant circulars issued by MCA and SEBI.

E-dispatch of Notice of AGM and Integrated Annual Report F1"25: Electronic copies of Notice of 32" AGM and Integrated Annual Report for the F1"25 have been sent through electronic mode on 7" August, 2025 to those Members whose e-mail ids were registered with Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company/ Depositories participant(s) as on Friday, 1st August, 2025.

The Company is providing facility to cast vote(s) on the business items set forth in the Notice through remote e-voting. Those members who may not cast their votes during remote e-voting may cast their votes during the AGM through VC/ OAVM.

1. Members are hereby informed that:

- Members holding shares either in physical/ dematerialized mode as Friday, 22<sup>rd</sup> August, 2025 i.e. cut-off date, may cast their votes electronically (remote e-voting as well as voting during AGM).
- e-voing as well as voting during 4cm and 102:00 pm (IST) on Monday, 25°
  ii. The remote e-voting period will commence at 02:00 pm (IST) on Monday, 25°
  August, 2025 and end on Thursday, 28° August, 2025 at 05:00 pm (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL forvoting thereafter.
  iii. The Members who will cast their votes by remote e-voting may attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- Notice of AGM and Integrated Annual Report for FY25 are also available on the websites
  of the Company i.e. <a href="https://ongcindia.com/web/eng/investors/agm">https://ongcindia.com/web/eng/investors/agm</a>. Stock
  Exchanges <a href="https://ongcindia.com/web/eng/investors/agm">www.bseindia.com</a> and <a href="https://ongcindia.com/web/eng/investors/agm">www.nseindia.com</a> Further, Notice of AGM has
  also been placed at the websites of e-voting agency, viz. National Securities Depository
  Limited (NSDL) at <a href="https://www.evoting.nsdl.com">https://www.evoting.nsdl.com</a>

#### 3 TDS on Dividend

Members may note that in terms of provisions of the Income Tax Act, 1961 as amended Members may note that in terms of provisions of the income Tax Act, 1961 as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 1\*April, 2020 is taxable in the hands of the Members. The Company is, therefore, required to deduct tax at a source at the time of payment of dividend to the members. In order to determine the applicable TDS rate, Members are requested to submit necessary forms/documents in accordance with provisions of Income Tax Act, 1961 on or before Thursday, 28" August, 2025 at the link <a href="https://longc.taxosmart.com/login.jsp">https://longc.taxosmart.com/login.jsp</a> for Final Dividend of the FY25 in order to enable the Company to determine and deduct TDS /withholding tax at applicable rates.

For detailed processes, please visit website of the Company https://ongcindia.com/ web/eng/investors/dividend-information/tds-dividend.

- In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.ndl.com or call on: 022 4888 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre-Senior Manager at evoting@nsdl.com.
- 5. Members whose e-mail ids are not registered with the Depositories/RTA of the Company or who became Member of the Company after the dispatch of notice and holds shares as on cut-off date, may refer procedure given in the Notice of AGM for procuring user id and password and registration of their email id for e-voting.
- Members are requested to read carefully all the instructions given in the Notice of AGM for joining the AGM through VC/ OAVM and manner of casting vote through e-voting.
- for joining the AGM through VC/ DAVM and manner of casting vote through e-voting.

  7. SEBI vide its Circular No. SEBIHO/MIRSD-Pof)P/FCR/202597 dated Z<sup>2\*</sup> July,
  2025, decided to open a special window only for re-lodgement of transfer deeds, which
  were lodged prior to 1\* Agni, 2019 and were rejected/returned/not attended due to
  deficiency in the documents/process or otherwise, for a period of six months from
  7 July, 2025 to 6\* January, 2026. During this period, the securifies that are re-lodged
  for transfer shall be issued only in Demat mode after completion of necessary
  documentations.
- occumentation.

  B. The Company has fixed Thursday, 4" September, 2025 as the "Record date" for determining entitlement of Members to receive final dividend for FY25. Considering this, Members holding shares in Physical Form are advised to update their KYC details i.e., PAN, Nomination, email id., contact no., Bank A/c details and Specimen signature with RTA of the Company and members holding shares in Demat Form can update their KYC and nomination with their Depositories concerned, if not already done pursuant to SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD-MIRSD-POD/P/CIR/2025/91 dated 23" June, 2025.

The Contact details of RTA of the Company are as under:

#### Alankit Assignments Ltd.

Alankit Heights, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi – 110055; Email ID: jksingla@alankit.com, rta@alankit.com, Tel: 91-11-4254 1234/1960

escribed forms for updation of the aforementioned details can be downloaded from the

link https://ongcindia.com/web/eng/investors/nomination.

For Oil and Natural Gas Corporation Ltd

Raini Kant Company Secretary & Complian (FCS: 4291)

INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Office: A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244 713, Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)
Phones: +91 5947 265000/285500, Fax: +91 5947 275515/289535
Email: compliance.officer@inldaglycols.com, Website: www.indiaglycols.com - CIN: L24111UR1983PLC009997

Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025

(₹ In Crore, except as stated

| SI. | Particulars   |                           | STANE                   | ALONE                     | CONSOLIDATED            |                           |                         |                           |                         |
|-----|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| No. |   | Quarter Ended Year Ended  |                         |                           |                         | Quarter Ended             |                         |                           | Year Ended              |
|     |   | 30.06.2025<br>(Unaudited) | 31.03.2025<br>(Audited) | 30.06.2024<br>(Unaudited) | 31.03.2025<br>(Audited) | 30.06.2025<br>(Unaudited) | 31.03.2025<br>(Audited) | 30.06.2024<br>(Unaudited) | 31.03.2025<br>(Audited) |
| 1   | Total income from operations  | 2,504.43                  | 2,189.59                | 2,285.23                  | 9,052.37                | 2,504.52                  | 2,190.24                | 2,285.38                  | 9,053.50                |
| 2   | Profit before Interest, depreciation and Tax (EBITDA)   | 149.26                    | 145.24                  | 125.43                    | 521.34                  | 151.04                    | 147.53                  | 128.36                    | 525.49                  |
| 3   | Net profit/ (Loss) for the period<br>(before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)   | 70.13                     | 68.12                   | 62.01                     | 241.78                  | 71.91                     | 70.41                   | 64.93                     | 245.92                  |
| 4   | Net profit/ (Loss) for the period before tax<br>(after Exceptional and/or extraordinary items)  | 70.13                     | 68.12                   | 62.01                     | 241.78                  | 90.53                     | 81.79                   | 75.65                     | 292.32                  |
| 5   | Net profit/ (Loss) for the period after tax<br>(after Exceptional and/or extraordinary items)   | 52.85                     | 50.35                   | 46.74                     | 180.38                  | 73.25                     | 64.02                   | 60.38                     | 230.92                  |
| 6   | Total Comprehensive Income for the period<br>[Comprising Profit! (Loss) for the period (after tax) and<br>other Comprehensive Income (after tax)] | 52.66                     | 49.37                   | 46.78                     | 179.51                  | 72.82                     | 63.26                   | 60.33                     | 229.62                  |
| 7   | Equity Share Capital  | 30.96                     | 30.96                   | 30,96                     | 30.96                   | 30.96                     | 30.96                   | 30.96                     | 30.96                   |
| 8   | Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet  |                           | 3122311                 |                           | 1,840.08                |                           | -                       | 3000000                   | 2,224.92                |
| 9   | Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised) - Basic & Diluted (In ₹)   | 17.07                     | 16,26                   | 15.10                     | 58.26                   | 23.66                     | 20,68                   | 19.50                     | 74.58                   |

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges Websites (www.beindia.com and on the Company's Website (URL: https://www.indiaglycols.com/financia-information). The same can be accessed by scanning the QR code provide



for INDIA GLYCOLS LIMITED U.S. BHARTIA Chairman and Managing Director DIN: 00063091

(1)

## STERLING TOOLS LIMITED

e and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June 202

|     |  | STANDALONE                 |              |              |                | CONSOLIDATED |              |              |                |  |
|-----|--|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|
| SI. | DADTION ADD  | Quarter Ended              |              | Year Ended   | Quarter Ended  |              |              | Year Ended   |                |  |
| No. | PARTICULARS  | PARTICULARS 30-06-2025 31- | 31-03-2025   | 30-06-2024   | 31-03-2025     | 30-06-2025   | 31-03-2025   | 30-06-2024   | 31-03-2025     |  |
|     |  | (Unaudited)                | (Unaudited)  | (Unaudited)  | (Audited)      | (Unaudited)  | (Unaudited)  | (Unaudited)  | (Audited)      |  |
| 1   | Total income from operations   | 16,320.51                  | 16,524.00    | 16,292.55    | 65,161.48      | 19,496.57    | 20,569.48    | 28,366.32    | 1,03,795.35    |  |
| 2   | Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)  | 1,485.51                   | 1,489.67     | 1,546.27     | 5,802.95       | 1,227.73     | 1,189.13     | 2,393.12     | 7,663.52       |  |
| 3   | Net Profit / (Loss) for the period before tax<br>(after exceptional and/or extraordinary items)  | 1,485.51                   | 1,489.67     | 1,546.27     | 5,802.95       | 1,227.73     | 1,189.13     | 2,393.12     | 7,663.52       |  |
| 4   | Net Profit / (Loss) for the period after tax<br>(after exceptional and/or extraordinary items)   | 1,104.95                   | 1,126.17     | 1,141.27     | 4,286.97       | 898.88       | 881.17       | 1,840.86     | 5,829.31       |  |
| 5   | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 1,098.96                   | 763.30       | 1,125.41     | 3,335.22       | 892.60       | 518.48       | 1,824.66     | 4,876.58       |  |
| 6   | Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 2/- each)  | 723.69                     | 723.69       | 720.48       | 723.69         | 723.69       | 723.69       | 720.48       | 723.69         |  |
| 7   | Other Equity   | -                          | _ =          | -            | 45,977.87      |              |              | - 3          | 49,243.75      |  |
| 8   | Earnings Per Share (₹ 2/- each)<br>Basic<br>Diluted  | 3.05<br>3.04               | 3.12<br>3.10 | 3.17<br>3.16 | 11.89<br>11.81 | 2.48<br>2.47 | 2.44<br>2.42 | 5.11<br>5.09 | 16.17<br>16.05 |  |

Date: 07.08.2025

- The standalone and consolidated unaudited financial results of Sterling Tools Limited (the Company) and its subsidiaries (collectively 'the Group') for the quarte ended 30° June 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meeting held on 7° August, 2025.
- ended 30° June 2025 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meeting held on 7° August, 2025. The statutory, auditors of the group have conducted a limited freview on these standalous and conscilated unaudited financial results. The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of appliable inclinal Accounting standards (IND AS) as notified under the Companies (Indian Accounting standards Rules, 2015 is, as mended), specified under Settor 133 of the Companies Act, 2013, other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Dislosure Requirements) Regulation, 2015 (as amended). Figures for the quarter ended 31° March, 2025 represents the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and published year to date reviewed figures up to the third quarter of the year ended 31° March, 2025. The Company is primarily in the business of manufacturing of asterness (i.e. automotive components) which falls within a single business segment in terms of Indian Accounting Standard 108- Operating Segments and accordingly there are no reportable segments.



For and on behalf of the Board of Directors STERLING TOOLS LIMITED Sd/ Atul Aggarwa

Managing Director DIN No. 00125825 epaper.financialexpress.com



#### नृत्य राघव मंदिर में वल रही रामकथा का समापन कल

मूर्टर देशवा भाद्रद व दारा ट्रांच क्रियान प्रकार का व्यक्ति क्रियान क्रियान क्रमण्य की आहम ने क्ष्य एक क्रियान प्रकार का व्यक्तिक क्रियान क्ष्य के क्ष्य एक विकास ने क्ष्य एक है। व्यक्त क्ष्य क्ष्य

#### शासन द्वारा मान्यता पाप्त कामता सोनोग्राफी सेन्टर (अल्ट्रासाउण्ड) M.D. (Radio Diagnosis Ex. J.R. AIMS New De Ex. Consultant Radiol Ex. Consultant Radiol iologist Alpha Imaging & MRI Ka iologist Noble Hospital Kanpur

# चलते परेशान होते रहे पक्षकार

तहसीलदारों की हड़ताल के

# रक्षासूत्र खरीदने बाजार उमड़ी बहनों की भीड़

## खासा उत्साह

रेडात्या उत्सीहरूँ जागरण, रीवा। रखार्थमण पर्य नखरीक आते ही बाजारों में अपने माईयों के लिए रकास्तुत खरीवने बहनों की पीढ़ उम्मद राही है। गुठवार जाम को राखी की दुकनों पर आती पीढ़ देखने की मिली। बन्दें अपने माहवों के लिए आपनी-अपनी पसंद की राखियां चंदरिकर स्वे गई तो कई दुकानों पर कहरें राखियां चंदरिक राखी नवर आहें। शाहर सहित समीप्तक क्षेत्री के पर बहुने आप खेळां के कि मान को कांद्र बाजार में माईपी बीठ देखी गई वादी को भी राखी की दुकानों पर स्कूल-कांद्रील आते वा बाली कांद्रएं साथीं करीति नजर आहे। राखी के साथ ही मिलाई की दुकानों पर, कपके की दुकानों पर, गिलट आहरम की दुकानों पर मुक्त की दुकानों पर, गिलट आहरम की दुकानों पर मा खरीदार खुट रहे हैं। राखांदमण पर्व को होकल खड़ा बड़ी, बज्जों में



खासा उत्साह है वहीं भाई भी अपनी-अपनी बहनों के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदने दकानों पर जट रहे हैं।

त्योहार पर महंगाई की मार, पीने वाले नारियल ने खिगाई दाम जासपा,तीया नार- मार्ड के मर्च स्थानंथन के मीके घर इस बर मेले निरंपल और सुची गंगी गोले के दानों में नब उज्जल आया है। प्रदेश पर में ये तेले दिवने को मिस रही हैं। लोहार पर जटा वाले गीले मिसक उठ से ठठ रुपए रेट में पिकता था। कमीबेश नहीं स्वारीत मार्ग के हरे नारियल की मंत्री हमा था। कमीबेश नहीं स्थिति मार्ग के हरे नारियल की मंत्री हमा था। कमीबेश नहीं स्थिति मार्ग के हरे नारियल की स्थार प्रति नम मिक स्ता है। गरी का गोला थी 240 से 380

## रक्षाबंधन पर २० वाला नारियल ३५ से ४० का, गोला ३८० रुपए किलो तक पहुंचा कच्चे नारियल के कारण बढ़ रहे दाम

रुपए प्रति किलो पहुंच गया। नारियल के बोक कारोबारियों के मुवाबिक कर्नाटक व केरल में फसल प्रभावित हुई है। इसके चरते पहली बार दम इतने अधिक बढ़ गए। व्यापारियों संविक्त वामों में कमी आना मुश्कित रिख रहा है।

#### पंचायत उन्नति सुचकांक का विमोचन 12 अगस्त को

#### सारा पोर्टल पर १०११८६१ किसानों की दर्ज होगी फार्मर रजिस्ट्री

की दुन्नी होगी फार्मेट रिजर्ट्यू वे वाच विकास के उस्तान के उस्तान के उस्तान की विकास वेक्सान के वास्तान की विकास वेक्सान के जान की विकास वेक्सान के उस के विकास मानत किया कर की रिक्रम के उस के विकास मानत किया कर के विकास के उस कि उस के विकास के विकास के उस के विकास कर के विकास के वित्र कर के विकास के वित्र कर के विकास के वित्र कर के विकास के वित्र कर के वित्

#### न नकल, सीमांकन के काम सिर्फ बढ़ रही पेशी

सिर्फ बढ़ रही पेशी
जारापा, रीजा। प्रदेश पर में प्रत्य राजस्य
(क्विड प्रारासिक सेवा) संच द्वारा राजस्य
अधिकारियों के न्यायिक व गैर न्यायिक
विश्वज्ञन पर संवर्ग द्वारा पूर्व में स्थायिक
वार्ष्ठ पर्व प्रत्य में प्रत्य प्रत्य स्थायिक
पर विरोध को पुर प्रारंप करने जुब्बार से
धरान दें रहे हैं। जिससे तहसील कार्यालक
कार्जा प्रार्थ मार्कित हो रहा है। पुरुष्ठ पर्व पर्व से
दे, जबकि इत्तात से अगीभड़ कर्त क्रियास
प्रतामकर येथी पर तो कोई सीयोकन के लिए
तो कोई नकला निकायानी तहसील
कार्यालय के जबकर कारकर लीट गार्थ के
दूसरे स्थित परवारी य किसान संगठन की
स्वर्ध स्थाय राजस्य साथ है। परवारी के
दूसरे स्थाय तर साथ है। परवेश परवारी व
कार्यालय के स्वरूप से
कार्यालय के जबकर तर साथ है। परवारी क
दूसरे स्थित परवारी य किसान संगठन की
स्वर्धन से तर साथ है। परवेश परवारी व
कर्म प्रताम कार्य साथ है। परवेश परवार कर्म
प्रताम कार्य साथ है। परवेश परवार कर्म
हम्म प्रताम कार्य साथ है। परवेश परवार कर्म
प्रताम तर्म की मां। उसके शिए कर्म
सार प्रवस्त नह कार जुक्के हैं, आ कर्म में सक्त
तेने ही आए थे, लेकिन नकल तान ही मिली।
प्रार्थ सिर्ण हुके हैं, आ कर्म में स्था

रामान्य चाला मारण व पारंपन स्वाच्या मारण क्ष्या स्वाच्या स्वच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्या स्वाच्

अज्ञय सादेव, सिलमरा जमीन गामले में आज पेशी थी। मुकर से दर्श आ गर हैं, लेकिन तस्सीलदारों की हड़ताल के चलते दार्श कोई काम नहीं हो रहें, जिससे वापस जा रहे हैं।

#### पटवारी, गिरदावरों ने भी दिया समर्थन

तहसीलवारों की अनिश्चितकालीन रुइताल दार समर्थन करते हुए। अब पटवारी, मिरदादरों ने भी अपना समर्थन दे दिया है। जिसके चलते तस्त्रील कार्यालय में खेने वाले कार्य प्रमावित होंगे।

## अमहिया रोड पर आधे घंटे तक लगा रहा जाम, एंब्रुलेंस फंसी

जागरण, रीवा। सहर के अमहिया रोड पर गुरुवार को करीब आधे घंटा से अधिक समय तक जाम की स्थिति निर्मित रही। अमहिया रोड पुर स्थित निर्मित रही। अमहिया रोड पर स्थित बाल भारती रुक्त की छुट्टी होते समय अल्पर यहां रुक्त की छुट्टी होते निर्मित होती हैं। रुक्त की छुट्टी होते समय पढ़ां पर क्लाकों होने जाने याले अस्पियलकों डारा व रुक्त वाहनों के नेरतकीं बतीके से यहां कर रिष्ट पार्ट मेरतकीं बतीके से यहां कर रिष्ट पार्ट सत्तावीं बतीके रहे यहां कर रिष्ट पार्ट सत्तावीं की के एक हो हिस्से होनी जी सर्थ का राय्य वाहन गुक्तते हैं। गुरुवार को वाहनों की अधिक संख्या होने के चलते



# रहे कर्मचारियों पर आरोप

#### ठेला व्यापारियों ने सौंपा संमागीय कमिश्नर को झापन



## सङ्क से ठेला हटाया तो लगा भाजपा को कड़ा सबक रिखाने का वक्त आ गया है: संजय शर्मा

कांग्रेस कार्यालय में हुई रणनीतिक बैठक कारोबर कार्यालय में हुई रणनीतिक बैठक अमरपन, यैवा शिला क्योन कमेरी कर एवं ग्रामीण के बंदाक कारावान में 21 उपनार को प्रथम पान में नवादी कर की वाले ज्वाव सरवाम क्या प्रमावी प्रकाल के लिए शिला क्योन प्रकारी पर्य पूर्व विधायक अंतिक मंद्रा कर आदिक में डिमाल क्योन करोवों के अध्यव हुंजी, राजेन्द्र समें में उद्धार दिवा क्योन करोवों के अध्यव हुंजी, राजेन्द्र समें में उद्धार दिवा क्योन क्योती बैठक आदिका की साथ कि अध्यवना व अग्न मिन्न कींचारी बैठक आदिका की साथ कि का कि को के प्रवर्धन का कींचा के क्या के साथ का में के कार कि जाब कि के प्रवर्धन कर में कींचा कर कींचा कर कींचा का कींचा के प्रवर्धन कर कींचा कींचा कर कींचा कर कींचा कींचा के प्रवर्धन कर कींचा कींचा कर कींचा कर कींचा कींचा कर कींचा कींचा की कींचा कींचा कर कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा कराम कर कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा किताओं वहु-अन्तांट एनं कोंचानियों की बताने का काम कर्य, कित्ता के साथ कींचा कींचा की कींचा की बताने का काम कर कींचा किताओं वहु-अन्तांट एनं कोंचानियों की बताने का काम कर कींचा किताओं वहु-अन्तांट एनं कोंचानियों की बताने का काम कर कींचा किताओं की कींचा की कींचा की बताने की का काम कर कींचा किताओं वहु-अन्तांट एनं कोंचानियों की बताने का काम कर कींचा किताओं वहु-अन्तांट एनं कोंचानियों की बताने का काम कर कींचा किताओं की कींचा की कींचा की बताने की का काम कर कींचा किताओं वहु-अन्तांट एनं कोंचानियों की बताने का काम कर कींचा किताओं की कींचा की कींचा की बताने का काम कर कींचा की बताने की का कींचा की बताने का काम कर कींचा किताओं वहु-अन्तांट एनं कोंचानियों की बताने की का काम कर कींचा किताओं की कींचा की कींचा की कींचा की बताने की का कींचा की बताने कींचा किताओं की कींचा की कींचा की कींचा की बताने कींचा की बताने कींचा कींचा कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की बताने की कींचा कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की बताने की कींचा कींचा कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा कींचा कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा कींचा कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की कींचा कींचा कींचा की कींचा की कींचा की कींचा की



सारती है। रूप सानी दूराव के साथ माजाय के अस्वाय, अस्वावार, व्युट स्वसीट, कियाई काम्ब्रुव का सारा माजाय के अस्वाय, उत्तराकार, वृद्ध स्वसीट, कियाई काम्ब्रुव का सारा कर के किया कार्योप का उपत्यक इंडी. उपांच्य कार्योप का उपत्यक इंडी. उपांच्य कार्योप का उपत्यक इंडी. उपत्यक कार्योप का उपत्यक इंडी. उपत्यक कार्योप कार्याच्य कार्योप कार्योप

(लाख र में)

## वार्ड 12 के रहवासियों को नल से मिल रहा काला पानी

## पीएवर्ड द्वारा प्रदाय किया जा रहा पानी

पाएचड़ द्वारा प्रदार किया जो रहा धाना नहाँ से निकल रहा एकदम काला ज्यानस्य, रीजा। सबर के वार्ड 12 के सहवासियों को मुख्यार को पीएचई ने कारि चानी की सजा हो। लोगों में पीएचई हाज प्रवास किया जानी काला पानी परते के हिएर देशे ही अपने तल खोलो उनमें आपलतुता एकदम काला पानी निकलते लगा को दूर्गिय तो मार रहा था अपितु कारा-बाई पानी गिर रहा था वार्डा उसके कारी-कारी निवास के पहले जा रहे दो वार्ड के रहबासियों को निक्कित यो वार्डी में पीएचई हारा प्रदान किया था रहा पानी गंदा व बदबुदार मिल रहा है, विस्तिक चलते वार्ड के सहसारियों को पासा चुना के रिएर बाजार में बिकने वारा पानी खरीना पड़ रहा है। गंदा पानी क्यों आ रहा, ये जानने का प्रयास ही नहीं किया : वार्ड के लोगों का कहना है कि कहवीं बार शिकायत करने के बाद थी नलों में गंदा व बदबूदार पानी क्यों आ रहा है जिम्मेदारों ने ये जानने



का कभी प्रवास नहीं किया। लोगों ने बताया कि जिनके घरों में बोरिंग हैं, उनमें भी पीने योग्य पानी नहीं आता। पीने का पानी उन्हें रोजाना खरीदना पड़ रहा है। जो गंदा पानी नलों के साध्यम से उन्हें प्रदाय किया जा रहा है, उसके बिल मिल रहे हैं और लोग समय-समय पर बिल भी अदा कर रहे हैं। इसके बाद भी वार्ड के रहवासियों की सुनवाई नहीं हो रही।

#### बिरला केबल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: उद्योग विहार, डाकघर-चोरहटा, रीवा - 486006 (म.प्र.) CIN: L31300MP1992PLC007190 Telephone No: 07662-400580, Fax No: 07662-400680

Email: headoffice@birlacable.com; Website: www.birlacable.com 30 जून, 2025 को समाप्त हुई तिमाही अवधि के अनांकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

| क्रमांक | विवरण   |               | वार्षिक अवधि |               |             |
|---------|---|---------------|--------------|---------------|-------------|
|         | 52555   | 30.06.2025    | 31.03.2025   | 30.06.2024    | 31.03.2025  |
|         | 1   | (अनांकेक्षित) | (अंकेक्षित)  | (अनांकेक्षित) | (अंकेक्षित) |
| 1       | परिचालनों से कुल आय   | 17643.76      | 15622.97     | 16590.77      | 66165.23    |
| 2       | समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)<br>(कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)  | 185.92        | 205.03       | 20.84         | 668.29      |
| 3       | कर के पूर्व समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)<br>(विशिष्ट एवं/अथना असाधारण मदों के पश्चात)                               | 185.92        | 205.03       | 20.84         | 668.29      |
| 4       | कर के पश्चात समयावधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)<br>(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)                              | 136.21        | 148.41       | 14.40         | 489, 14     |
| 5       | ममयावधि के लिए विस्तृत आय [ समयावधि के लिए<br>लाभ (कर पश्चात) एवं अन्य विस्तृत आय (कर पश्चात)<br>को समावेशित करते हुए ] | 2018.28       | (1969.91)    | 1698.37       | 749.66      |
| 6       | समता अंश पूँजी (प्रति अंश आय मूल्य ₹10/- प्रति)   | 3000.00       | 3000.00      | 3000.00       | 3000.00     |
| 7       | आरक्षतियाँ (पुनर्मुल्यांकन आरक्षित को छोड़ कर)  |               |              |               | 22324.94    |
| 8       | समयाबधि के लिए आधारभूत एवं तरलीकृत प्रति अंश<br>आय (₹ 10/- प्रति अंश)   | 0.45          | 0.49         | 0.05          | 1.63        |

| क्रमांक | विवरण                     |               | तिमाही अवधि |               |           |  |  |
|---------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|--|--|
|         |                           | 30.06.2025    | 31.03.2025  | 30.06.2024    | 31.03.202 |  |  |
|         |                           | (अनांकेश्वित) | (अंकेक्षित) | (अनांकेश्वित) | (अंकेशित  |  |  |
| 1       | परिचालनों से कुल आय       | 17643.76      | 15622.97    | 16590.77      | 66165.23  |  |  |
| 2       | कर के पूर्व लाभ           | 184.03        | 202.99      | 8.98          | 683.56    |  |  |
| 3       | कर के पश्चात लाभ          | 134.49        | 145.07      | 2.54          | 503.11    |  |  |
| 4       | समयावधि के लिए विस्तृत आय | 2016.67       | (1972.71)   | 1685.90       | 762.07    |  |  |

उपरोक्त विवरण कम्पनी के 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही अवधि के अनांकेक्षित समेकित एवं एकांगी वित्तीय परिणामों के बिस्तृत प्रारूप का नारांश है जो कि सेवी के (दासित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) अधिनियम 2015 के नियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में फाईल किया गया है। 30 जून, 2025 को समाप्त हुई उपरोक्त निमाही अवधि के वित्तीय परिणामों का पर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंओं की वेब साईट www.bseindia.com एव m एवं कम्पनी की वेब साईट www.birlacable.com पर भी उपलब्ध है। दिए गए क्विक रिस्पो (QR) कोड को स्कैन करके भी इस पर पहुंचा जा सकता है



(हर्ष वी. लोडा) चेयरमैन डीन : 00394094

# सर्वहारा वर्ग के हितैषी थे स्व. संजीव मोहन गप्त

### दसरी पण्य विश्वि पर दैनिक जागरण परिसर में दी गई श्रद्धांजील



जाररण, रीजा। गुण्याद को दैनिक जाररण के स्थानीय संगदक रहे स्व. संजीव मोहन गुण की दूसरी पुण्यविधि पर वैनिक जारण परिवार ह्या पुण्याविधि पर विनेक जारण के महावर्षण रीज में उनके निज पर पुण्य कर्मण कर नमन किया गया। इस कथसर स्व. श्री गुण को ब्रह्म सुम्म अधित करते हुए देशिक जारण के महावर्षणक सुखेद सिंक ने कहा कि रह संजीव मोहन निया की विन जारण कर नाम के स्वारण को प्राप्याविध के सिंप सुनी प्रीप्याविध नियारण के माने के सिंपस्ता भी पुण्या वर्षी विनेक जारण रीज के सामक्षित कार्री कि रख. संजीव मोहन गुण जी अख्वसर में साम के कमजोर कर्म के हितों को प्रमुखता रहे ये। उन्होंने पूर्व्यो स्थान के समझीत नार्शी किया श्री गुण देन समाज की प्रगीव व सर्ववारा वर्षा के हितों को प्रमुखता देवे ये। उन्होंने पूर्वा गुण्याविध अधित किया। इस अध्यस्त को प्रतिस्थिति करने में महत्वपूर्ण गुण्याविध प्राप्याविध है इस्के पूर्ण जारण परिवार के सभी सार्थीकनों ने पुण्याविध अधित किया। इस अवसर पर देवे आप प्रमंख देवेश मुक्त प्रसार प्रतिक क्राम अपनार रहेते पर प्रमार प्रतिक सार्थी अपनार परिवार के सभी सार्थीकनों ने पुण्याविध अधित किया। इस अवसर पर देवेश प्रमंख देवेश प्रमुक्त प्रसार प्रतिक जार प्रमंख दिवी प्रकृत प्रकृत सह सभी स्व.



# विन मेडिसेल फार्मा - हेल्य केयर एवं स्त्री रोग विकिस्त

• मासिकधर्म में अनियमितता • रक्त स्त्राव का ज्यादा होना • उल्टी, दस्त बुखार • डायबिटीज • सिर दर्द, माइग्रेन • थायरॉइड • निमोनिया • जोड़ो का दर्द का इलाज • डेंगू, मलेरिया एवं टाइफाइड दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी (मिनिमम ऑर्डर 500रू.)







फोन: 8860866444 फ्लैट नं. ०१, वार्ड नंबर ९, मैंगो ट्री होटल के पास, अनंतपुर, रीवा, मध्य प्रदेश-४८६००१

दिनांक: 07 अगस्त, 2025